



January 23, 2026

IGAL/SECT/1-26/12

To	To
National Stock Exchange of India Limited	BSE Limited
Exchange Plaza, C - 1, Block G	Phiroze Jeejeebhoy Towers
Bandra Kurla Complex, Bandra - (E)	Dalal Street
Mumbai - 400 051	Mumbai - 400 001
Symbol: INDIGO	Scrip Code: 539448

**Subject: Newspaper Publications**

**Ref: Financial Results for the Quarter and nine months ended December 31, 2025**

Dear Sir/ Madam,

In compliance with Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of newspaper publications in relation to unaudited standalone and consolidated financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2025, published in Financial Express (English - all editions) and Jansatta (Hindi- Delhi edition) on January 23, 2026.

This disclosure is also being made available on the Company's website at [www.goindigo.in](http://www.goindigo.in).

The above is for your information.

Thanking you,  
For **InterGlobe Aviation Limited**

**Neerja Sharma**  
**Company Secretary & Chief Compliance Officer**

Encl: a/a

# Poonawalla to make strong bid for RCB

GEETA NAIR  
Pune, January 22



ADAR POONAWALLA,  
CEO, SERUM INSTITUTE OF INDIA

Over the next few months, will be putting in a STRONG and COMPETITIVE bid for RCB, one of the best teams in the IPL

ADAR POONAWALLA, OWNER of the vaccine manufacturer Serum Institute, announced on Thursday his intention to submit a strong and competitive bid for the Bengaluru-based Indian Premier League (IPL) team, Royal Challengers Bangalore (RCB).

Poonawalla described RCB as one of the best teams in the IPL and stated that he would be putting in a bid over the next few months.

The billionaire has been assessing the deal, and discussions have been ongoing. However, Poonawalla noted that the valuation expectations for RCB are quite high. Last October, he expressed interest in the RCB team, stating that "at the right valuation, RCB is a great team."

Poonawalla is among the front-runners alongside other

interested parties, including Zerodha's Nikhil Kamat, Manipal Group's Ranjan Pai, and the JSW and Adani groups.

United Spirits, the parent company of RCB, through Diageo, has initiated a strategic review of its investment in Royal Challengers Sports Private Limited (RCSPL), a wholly-owned subsidiary of United Spirits. RCSPL manages the Royal Challengers Bengaluru (RCB) franchise in both the Men's IPL and Women's Pre-

mier League (WPL).

United Spirits expects this review process to conclude by March 31, 2026. Praveen Someshwar, managing director and CEO of United Spirits, stated that RCSPL has been a valuable strategic asset but is non-core to their alcoholic beverage business. This review aligns with USL's and Diageo's commitment to continuously assess their India enterprise portfolio to ensure long-term value for all stakeholders.

## Waaree looks to grow non-solar business

RAGHAVENDRA KAMATH  
Mumbai, January 22

WAAREE ENERGIES IS transitioning from a pure play solar products company to an energy transition company to diversify its business model.

"Waaree 1.0 was more of a solar company which is transitioning towards Waaree 2.0 which is less of a solar but more of an energy transition enabler," said Abhishek Pareek, group head – finance at Waaree Energies in a post Q3 earnings interaction with FE.

Five years ago, its revenues from modules was around 90%. This year, the company's revenue from pure play utility scale modules would be around 70% whereas 30% revenue would come from retail, manufacturing, EPC and from other services, Pareek said.

Under Waaree 2.0, the company is looking at a module capacity of 28 GW by next financial year and cell capacity of 15 GW. It will have 20 GW of battery energy storage systems (BESS) facility and 4 GW inverter facility, 20,000 MVA transformer facility and 1 GW electrolyser capacity.

However, he declined to give guidance on the share of non-solar business in overall revenues. "Our other products (non-solar), other businesses are certainly capital guzzling. We are committed to invest capital and we are seeing the other traction also," he said, adding that the firm will cross Ebitda guidance of ₹6,000 crore for the year by a good margin given that they have already crossed ₹4,300 crore of Ebitda.

## NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES

Notice is hereby given that the following share certificates issued by M/S Voltas Limited in my name had been lost / misplaced:

Folio No	No of Shares	Share Certificate No	Distinctive No From	Distinctive No To
VOX0030713	50	50962	2549428	2549477
VOX0030713	50	50963	2549478	2549527
VOX0030713	50	50964	2549528	2549577
VOX0030713	50	50965	2549578	2549627
VOX0030713	50	138216	14385813	14385862
VOX0030713	50	138217	14385863	14385912

Due notice thereof has been given to the Company and I have applied to the Company for the issue of Duplicate Share Certificates.

The public is hereby warned against purchasing or dealing in any way with the above Share Certificate(s). Any person who has any claim in respect of the said Share Certificate(s) should lodge such claim with Company Voltas Limited, Voltas House A, Dr. Babasaheb Ambedkar Road, Chinchpokli, Mumbai 400033 or its Share Transfer Agents, MUFG Intime India Private Limited, C-101 Embassy, 247 L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400083 within 15 days of publication of this notice else the Company will proceed to issue duplicate certificate(s), without further intimation.

Place : Chennai

Date : 22.01.2026

JAYAKAR KRISHNAMURTHY

## Global OEMs coming to India for testing

GEETA NAIR  
Pune, January 22

### GOING GLOBAL

■ ARAI diversifying focus beyond road mobility into other niche areas



■ The drone testing facility has received approval and will be operational soon

received government approval and will be operational soon.

Reji Mathai, director, ARAI, mentioned that the introduction of testing under the Basic Customs Duty Exemption Scheme has made India an attractive location for testing. This scheme allows companies to be exempt from paying

duties, resulting in significant savings. In the last one and a half years, ARAI has tested and validated 55 vehicles, including rail and metro, aerospace and defence, drones, white goods, mining machines, and construction equipment.

The drone testing facility has

several of these companies are based in Europe. Foreign vehicles for testing under the Basic Custom Duty Exemption Scheme include Toyota, JLR, Stellantis and Vinfast.

Another factor fuelling growth in this segment is the Global Capability Centres (GCCs). Vijay A Pankhawalla, a senior deputy director at ARAI, noted that GCCs in the engineering, research, and development sectors are designing and developing products locally that require testing and validation. ARAI has become a key hub for these GCCs testing and prototype needs. To better serve this customer segment, ARAI is establishing a new facility in Bengaluru.

### Zee Entertainment net tumbles 5% on weak advertising

Zee Entertainment Enterprises (Zee) reported a 5.1% year-on-year decline in third quarter (Q3FY26) profit to ₹155 crore on Thursday, as subdued advertising demand and rising programming expenses continued to weigh on earnings. Operating profitability (Ebitda) took a sharp hit in Q3, down 20.3% versus last year to ₹256 crore. While margins declined 500 basis points to 11.2% in Q3 versus 16.2% reported last year. While Q3 revenue rose 15.2% year-on-year to ₹2,280 crore, advertising revenue, which accounts for around 40% of its topline, fell 9.4% from a year earlier to ₹851 crore. Sequentially, however, ad revenue was up 5.7% from ₹806 crore in Q2FY26.

### Orient Electric Q3 profit slips 4.4% to ₹26 cr

ORIENT ELECTRIC ON Thursday reported a 4.37% decline in its net profit to ₹25.98 crore for the December 2025 quarter, mainly on account of the impact of exceptional expenses. It had posted a net profit of ₹27.17 crore in the October-December quarter of the preceding fiscal year, according to a regulatory filing from the CKA Birla group firm Orient Electric Ltd (OEL).

CKA Birla Group

### Orient Electric Limited

Registered Office: Unit VIII, Plot No. 7, Bhoi Nagar, Bhubaneswar-751012, Odisha  
Tel: 0674-2396930, Email: investor@orientelectric.com Website: www.orientelectric.com, CIN: L51100OR2016PLC025892

Extract of Un-Audited Financial Results for the quarter ended December 31, 2025 (INR in crores)

S.No.	Particulars	Quarter ended		Nine months ended	
		31-Dec-2025			
		31-Dec-2024	31-Dec-2025		
1.	Total Revenue	906.45	816.82	2,378.14	
2.	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional items and/or Extraordinary items)	43.59	36.62	83.55	
3.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional items and/or Extraordinary items)	34.94	36.62	74.90	
4.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional items and/or Extraordinary items)	25.98	27.17	55.56	
5.	Total Comprehensive Income for the period	26.13	27.25	55.86	
6.	Equity Share Capital	21.34	21.34	21.34	
7.	Other Equity	-	-	-	
8.	Earnings Per Share (of Rs. 1/- each)	1.22	1.27	2.60	
	Basic:	1.22	1.27	2.60	
	Diluted:	1.22	1.27	2.60	

Note

1. The above financial results of the Company were reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on January 22, 2026.
2. The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Un-Audited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2025 are available on the websites of the Stock Exchanges (www.bseindia.com / www.nseindia.com) and Company's website (www.orientelectric.com). The same can be accessed by scanning the QR code provided below:



orient electric

For Orient Electric Limited  
Sd/-  
Ravindra Singh Negi  
Managing Director & CEO

Date: January 22, 2026

Place: New Delhi

Dated: January 22, 2026



### INTERGLOBE AVIATION LIMITED

CIN: L62100DL2004PLC129768

Registered Office: Upper Ground Floor, Thapar House, Gate No. 2,

Western Wing, 124 Janpath, New Delhi – 110001, India

Tel: +91 96500 98905; Fax: +91 11 4351 3200

E-mail: investors@goindigo.in; Website: www.goindigo.in

### UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2025

In compliance with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), the Board of Directors of InterGlobe Aviation Limited ("Company") at its meeting held on Thursday, January 22, 2026 approved the unaudited financial results (standalone and consolidated) for the quarter and nine months ended December 31, 2025 ("results").

The results, along with the Limited review reports by M/s. S.R. Batliboi & Co. LLP, Statutory Auditors of the Company, are available on the website of the Company at <https://www.goindigo.in/information/investor-relations.html>, and on websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](https://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](https://www.nseindia.com), respectively.

In compliance with Regulation 47 of the SEBI Listing Regulations, we hereby notify that the results can also be accessed by scanning the following Quick response (QR) code:



For InterGlobe Aviation Limited

Sd/-

Neerja Sharma

Company Secretary & Chief Compliance Officer

Place : Gurugram

Date: January 22, 2026

Place: New Delhi  
Dated: January 22, 2026

For InterGlobe Aviation Limited

Sd/-

Neerja Sharma

Company Secretary & Chief Compliance Officer

Place: New Delhi

Dated: January 22, 2026

For InterGlobe Aviation Limited

Sd/-

Neerja Sharma

Company Secretary & Chief Compliance Officer

Place: New Delhi

Dated: January 22, 2026

For InterGlobe Aviation Limited

Sd/-

Neerja Sharma

Company Secretary & Chief Compliance Officer

Place: New Delhi

Dated: January 22, 2026

For InterGlobe Aviation Limited

Sd/-

Neerja Sharma

